


राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर कोर्स रिपोर्ट

“साइबर क्राइम इनवेस्टीगेशन प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर”

Date 10-10-2022 to 14-10-2022 Course No. 19, Under CCPWC Project

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत “साइबर क्राइम इनवेस्टीगेशन प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर” विषय पर दिनांक 10-10-2022 से 14-10-2022 तक 5 दिवसीय कोर्स आयोजित किया गया।

मुझ कोर्स निदेशक विनोद शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर तथा सहायक कोर्स निदेशक श्री यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा कोर्स का सफल आयोजन करवाया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 22 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 04 पुलिस निरीक्षक तथा 18 उप-निरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हुए।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री नवज्योति गोगाई, अतिरिक्त निदेशक द्वारा किया गया। जिसमें श्रीमान द्वारा साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया जाकर प्री कोर्स मूल्यांकन परीक्षा ली गयी।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का आरंभ श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फॉरेन्सिक कंसल्टेंट राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया गया, जिसमें Overview of Cybercrimes - Computer Foundation and Basics of cyber crimes specific to women and children विषय पर जानकारी दी गयी। दोपहर बाद के सत्र में श्री अक्षय उपाध्याय, साइबर एकस्पर्ट, (साइबरपीस फाउण्डेशन) द्वारा Information Gathering (Case Study/Scenario Analysis) एवं Information Gathering hands on practice के बारे में जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस सभी प्रतिभागियों को एफएसएल ले जाया गया जहाँ श्री विश्वास भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर, एफएसएल जयपुर द्वारा क्राइम सीन मैनेजमेंट विषय पर घटना स्थल के सुरक्षित करने, निरीक्षण व तैयार किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी गयी व बाद दोपहर क्राइम सीन मैनेजमेंट विषय में ही घटना स्थल पर तलाशी पूर्व तैयारीयों, जब्ती व दस्तावेजों तथा आवश्यक फॉरेन्सिक संसाधनों की विस्तृत जानकारी भी दी गयी। साथ ही प्रतिभागियों को हैण्डस ऑन प्रैक्टिस भी करवाई गई।

प्रशिक्षण के तृतीय दिवस प्रथम सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर एकस्पर्ट द्वारा Social Media Investigation Case Study and Cyber Crime Against Women & Child एवं Social Media Investigation, Important ITC terminologies and techniques & Hands-on with case study विषय पर जानकारी दी गयी। बाद दोपहर के सत्र में श्रीमती रीमा सैनी, साइबर एकस्पर्ट द्वारा आई पी, वेबसाइट और ई मेल संबंध में जानकारी साझा की गयी। प्रतिभागियों को Hands on exercise भी करवाई गई।

प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में श्री राजकुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक, एसीबी, जयपुर द्वारा Financial Frauds, Simulation & Evaluation Exercises Financial Frauds Hands-on with case study विषय पर जानकारी दी गयी। बाद दोपहर के सत्र में श्री मनोज मीना, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लॉ डिपार्टमेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा साइबर अपराध के अनुसंधान में सूचनाएं एकत्र करने के संबंध में जानकारी साझा की गयी व Investigation Challenges in cybercrime (Interaction Session) के संबंध में जानकारी साझा की गयी।

अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, सीआईडी(आई बी), जयपुर द्वारा मोबाईल फोन, सेटेलॉइट फोन, जीपीएस डिवाइस आधारित अनुसंधान, फोन व सिम कार्ड तलाशी, जब्ती में रखी जाने वाली सावधानियाँ व जीपीआरएस लॉग्स विषय पर जानकारी दी गयी। अंतिम सत्र में श्री यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा देश से बाहर बैठकर किये जाने वाले साइबर अपराधों का कैसे अनुसंधान किया जाना है के बारे में जानकारी साझा की गयी।

सहायक कोर्स निदेशक द्वारा समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाकर प्रशिक्षणोपरान्त सभी की पोस्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा ली गयी। सम्पूर्ण कोर्स में प्रतिभागियों को Hands on exercise भी करवाई गई। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त एक पेन ड्राईव में प्रशिक्षण के दौरान पढाया गया तथा एमएचए द्वारा उपलब्ध करवायी गयी प्रशिक्षण अध्ययन सामग्री प्रतिभागियों को उपलब्ध करवायी गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 14-10-2022 को 04.45 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन-समारोह अकादमी स्थित, सीसीपीडब्ल्यूसी लैब में श्री कैलाश चन्द, डीआईजी आरपीए द्वारा समापन उद्बोधन दिया जाकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में मन कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस एवं
कोर्स निदेशक, (CCPWC)
आर.पी.ए. जयपुर